



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 भाद्र 1934 (श0)
(सं0 पटना 417) पटना, बृहस्पतिवार, 23 अगस्त 2012

सं0 4 (न) विविध-15/2011—2881/न0वि0एवंआ0वि

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

16 अगस्त 2012

विषय:—नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन “नगरपालिका प्रशासन निदेशालय” (Directorate of Municipal Administration) का पुनर्गठन एवं सशक्तिकरण के संबंध में।

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के अन्तर्गत पूर्व से एक “स्थानीय निकाय निदेशालय” अवस्थित है जो कर्मचारियों की कमी, कार्य दायित्वों की अस्पष्टता एवं नियुक्तियों पर रोक के कारण कार्यरत नहीं था। अतः सीधे नगर विकास एवं आवास विभाग पर ही नीति निर्धारण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन पर दृष्टि रखने के साथ-साथ सभी प्रशासकीय एवं स्टाफ संबंधी मुद्दों पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी आ जाती थी। इस व्यवस्था से विभाग पर अतिरिक्त दबाव बना रहता था और नीतिगत तथा रणनीतिक मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने में कठिनाई होती थी। अतः विभाग के नियंत्रणाधीन नगरपालिका प्रशासन निदेशालय (Directorate of Municipal Administration) का पुनर्गठन एवं इसके सशक्तिकरण का मामला सरकार के विचाराधीन था। इस मामले पर सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:—

1. स्थानीय निकायों पर सतत् एवं प्रभावी नियंत्रण रखने तथा उन्हें आवश्यक सहायता देने हेतु एक निदेशालय की स्थापना की जायेगी जिसे नगरपालिका प्रशासन निदेशालय (Directorate of Municipal Administration) नामित किया जायेगा।
2. (क) उक्त निदेशालय के लिए पूर्व से कार्यरत शहरी गरीबी निदेशालय में उपलब्ध 14 (चौदह) पद तथा स्थानीय निकाय निदेशालय में उपलब्ध 6 (छः) पद अर्थात् कुल 20 (बीस) उपलब्ध गैर योजना के पदों को समाप्त कर योजना मद में कुल 46 (छियालिस) नये पद सृजित किये जायेंगे। सृजित कुल पदों का विवरण निम्नलिखित है:—

क्र० सं०	पद का नाम	सृजित पदों की संख्या
1	निदेशक (विशेष सचिव के समकक्षीय पद)	01
2	अपर निदेशक (संयुक्त सचिव के समकक्षीय पद)	02
3	सहायक निदेशक (उप-सचिव समकक्षीय पद)	04
4	आई0टी0 मैनेजर	01
5	प्रशाखा पदाधिकारी	04
6	सहायक	08
7	लेखापाल	01
8	उच्चवर्गीय लिपिक	05
9	आशुलिपिक-सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर	05
10	कम्प्यूटर ऑपरेटर	09
11	आदेशपाल	06
कुल		46

(ख) उक्त पदों पर होने वाले व्यय की विवरणी अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।

3. नगरपालिका प्रशासन निदेशालय के निदेशक के लिए एक कार तथा निदेशालय कार्यालय के लिए दो वाहन अर्थात् कुल तीन वाहनों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखा जायेगा।

4. (i) निदेशालय के निदेशक, अपर निदेशक, सहायक निदेशक तथा आई0 टी0 मैनेजर के सभी पदों के लिए उन पदों पर भारित होने की तिथि से दो वर्षों के वेतन भत्ते आदि का सभी खर्च SPUR द्वारा किया जायेगा।

(ii) कम्प्यूटर ऑपरेटर के सभी पदों का अगले 5 वर्षों तक होने वाला व्यय भार SPUR द्वारा वहन किया जायेगा।

(iii) निदेशालय के कम्प्यूटर एवं अन्य उपकरणों की प्रारम्भिक स्थापना का खर्च लगभग 10 लाख रुपये का वहन भी SPUR द्वारा किया जायेगा।

(iv) "नगरपालिका प्रशासन निदेशालय" के लिए किराये पर भवन लिया जायेगा जिसके लिए एक लाख रु० प्रति माह का व्यय सम्भावित है। यह व्यय राज्य सरकार के कोष से वाहित होगा।

(v) इस प्रकार SPUR एवं बिहार सरकार का व्यय वहन प्रथम दो वर्षों के लिए निम्न प्रकार से किया जायेगा:-

SPUR का योगदान

(a) प्रथम वर्ष : रु० 7188000 (वेतनमद में)

(b) द्वितीय वर्ष : रु० 7403640 (वेतनमद में)

दो वर्षों के लिए कुल व्यय:-14591640.00+10.00 लाख (कम्प्यूटर स्थापना) = रु० 15591640/-

बिहार सरकार का योगदान

(a) प्रथम वर्ष : रु० 7500000 (वेतनमद)

(b) द्वितीय वर्ष : रु० 7725000 (वेतनमद)

(c) दोनों वर्ष के लिए कुल व्यय:- रु० 15225000 (वेतनमद)

(d) दो वर्षों के बाद प्रतिवर्ष रु० 15128640.00 व्यय प्रस्तावित है। यह राशि समय-समय पर बढ़ेगी।

(e) इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को भवन किराया के रूप में 12.00 लाख प्रतिवर्ष, यात्रा भत्ता मद में 3.00 लाख प्रतिवर्ष, आकस्मिक व्यय (वाहन आउटसोर्सिंग से रखने सहित) 14.00 लाख प्रतिवर्ष व्यय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[illegible]

(ख) अनावर्ती व्यय

क्र० सं०	स्पर (SPUR) द्वारा	
	कम्प्यूटर स्थापना	10,00,000.00

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 417-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>